



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2009/अग्रहायण 20, 1931

No. 709]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2009/AGRAHAYANA 20, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 893(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियमावली, 2009 है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "पश्चिम बंगाल" शीर्षक के अन्तर्गत उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पश्चिम बंगाल

1. राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पद

162

पुलिस महानिदेशक

1

कमांडेंट जनरल, होमगार्ड्स, पश्चिम बंगाल

1

पुलिस आयुक्त-कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

1

अपर पुलिस महानिदेशक-प्रशासन, पश्चिम बंगाल

1

अपर पुलिस महानिदेशक-कल्याण, पश्चिम बंगाल

1

अपर पुलिस महानिदेशक-सशस्त्र पुलिस, पश्चिम बंगाल

1

प्रबंध निदेशक, पुलिस हाउसिंग कोरप., पश्चिम बंगाल

1

अपर पुलिस महानिदेशक-रेलवे, पश्चिम बंगाल

1

अपर पुलिस महानिदेशक-प्रवर्तन शाखा, पश्चिम बंगाल

1

अपर पुलिस महानिदेशक-सी आई डी, पश्चिम बंगाल

1

अपर पुलिस महानिदेशक-राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, पश्चिम बंगाल

1

अपर पुलिस महानिदेशक-आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल

1

अपर पुलिस महानिदेशक-दूरसंचार, पश्चिम बंगाल

1

अपर पुलिस महानिदेशक-प्रशिक्षण, पश्चिम बंगाल

1

पुलिस महानिरीक्षक-सशस्त्र पुलिस, कोलकाता

1

पुलिस महानिरीक्षक-मुख्यालय, पश्चिम बंगाल

1

पुलिस महानिरीक्षक-सी. आई. डी. I, पश्चिम बंगाल

1

पुलिस महानिरीक्षक-सी. आई. डी. II, पश्चिम बंगाल

1

पुलिस महानिरीक्षक-आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल

1

पुलिस महानिरीक्षक-प्रवर्तन शाखा, पश्चिम बंगाल

1

पुलिस महानिरीक्षक-संगठन, पश्चिम बंगाल

1

पुलिस महानिरीक्षक-रेलवे, पश्चिम बंगाल

1

पुलिस महानिरीक्षक-दूरसंचार, पश्चिम बंगाल

1

पुलिस महानिरीक्षक-नॉर्थ

1

पुलिस महानिरीक्षक-साउथ

1

पुलिस महानिरीक्षक-पश्चिम

1

पुलिस महानिरीक्षक-यातायात, पश्चिम बंगाल

1

अपर पुलिस आयुक्त-I, कोलकाता

1

अपर पुलिस आयुक्त-II, कोलकाता

1

अपर पुलिस आयुक्त-III, कोलकाता

1

अपर पुलिस आयुक्त-IV, कोलकाता	1	उप पुलिस महानिरीक्षक-सशस्त्र पुलिस, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल	1
पुलिस महानिरीक्षक-आसूचना शाखा (सीमा), पश्चिम बंगाल	1	उप पुलिस महानिरीक्षक-ई.एफ.आर., बटालियन, पश्चिम बंगाल	1
पुलिस महानिरीक्षक-आसूचना शाखा (उत्तर बंगाल), पश्चिम बंगाल	1	उप पुलिस महानिरीक्षक-प्रवर्तन शाखा, पश्चिम बंगाल	1
पुलिस महानिरीक्षक-कल्याण, पश्चिम बंगाल	1	उप पुलिस महानिरीक्षक-प्रशिक्षण सह प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल	1
पुलिस महानिरीक्षक-प्रशिक्षण, पश्चिम बंगाल	1	उप पुलिस महानिरीक्षक-होमगार्ड, पश्चिम बंगाल	1
पुलिस महानिरीक्षक-कानून एवं व्यवस्था, पश्चिम बंगाल	1	उप पुलिस महानिरीक्षक-एवं सिविल सुरक्षा नियंत्रक, पश्चिम बंगाल	1
पुलिस महानिरीक्षक-सतर्कता आयोग, पश्चिम बंगाल	1	उप पुलिस महानिरीक्षक-राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, पश्चिम बंगाल	1
पुलिस महानिरीक्षक-प्रशासन, पश्चिम बंगाल	1	उप पुलिस महानिरीक्षक-आधुनिकीकरण, पश्चिम बंगाल	1
पुलिस महानिरीक्षक-सशस्त्र पुलिस, नॉर्थ बंगाल, सिलीगुड़ी	1	उप पुलिस महानिरीक्षक-दार्जिलिंग रेंज, पश्चिम बंगाल	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त, सशस्त्र पुलिस, कोलकाता	1	उप पुलिस महानिरीक्षक-अन्वेषण ब्यूरो वित्त (टी.) विभाग	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त, संगठन, कोलकाता	1	पुलिस अधीक्षक- हावड़ा, नादिया, मुर्शीदाबाद, बर्द्धवान, बीरभूम, हुगली, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, जलपाइगुड़ी, कूच बिहार, दार्जिलिंग, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, पूर्व मेदिनीपुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना	18
संयुक्त पुलिस आयुक्त, प्रशासन, कोलकाता	1	विशेष पुलिस अधीक्षक-आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	3
संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात, कोलकाता	1	विशेष पुलिस अधीक्षक-सी.आई.डी., पश्चिम बंगाल	3
संयुक्त पुलिस आयुक्त, विशेष कार्य बल, कोलकाता	1	विशेष पुलिस अधीक्षक-आसूचना शाखा, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त, आसूचना, कोलकाता	1	पुलिस अधीक्षक-रेलवे पुलिस, हावड़ा	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय, कोलकाता	1	पुलिस अधीक्षक-रेलवे पुलिस, सियालदाह	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध, कोलकाता	1	पुलिस अधीक्षक-रेलवे पुलिस, सिलीगुड़ी	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-मुख्यालय, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस अधीक्षक-रेलवे पुलिस, खड़गपुर	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-प्रशासन, पश्चिम बंगाल	1	कमांडेंट, इस्टर्न, फ्रंटियर राइफल्स, प्रथम बटालियन	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-संगठन, पश्चिम बंगाल	1	कमांडेंट, इस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स, द्वितीय बटालियन	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-आई.पी.एस. एकक, पश्चिम बंगाल	1	कमांडेंट, इस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स, तृतीय बटालियन	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-कल्याण, पश्चिम बंगाल	1	कमांडेंट, स्टेट आर्मड् पुलिस, प्रथम बटालियन, पश्चिम बंगाल	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-सतर्कता, पश्चिम बंगाल	1	कमांडेंट, स्टेट आर्मड् पुलिस, द्वितीय बटालियन, पश्चिम बंगाल	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-रेलवे, पश्चिम बंगाल	1	कमांडेंट, स्टेट आर्मड् पुलिस, तृतीय बटालियन, पश्चिम बंगाल	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-यातायात, पश्चिम बंगाल	1	कमांडेंट, स्टेट आर्मड् पुलिस, चौथी बटालियन, पश्चिम बंगाल	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-प्रेजिडेंसी रेंज, पश्चिम बंगाल	1	कमांडेंट, स्टेट आर्मड् पुलिस, छठी बटालियन, पश्चिम बंगाल	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-बर्द्धवान रेंज, पश्चिम बंगाल	1	कमांडेंट, स्टेट आर्मड् पुलिस, सातवीं बटालियन, पश्चिम बंगाल	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-मिदनापुर रेंज, पश्चिम बंगाल	1	कमांडेंट, स्टेट आर्मड् पुलिस, आठवीं बटालियन, पश्चिम बंगाल	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-मुर्शीदाबाद रेंज, पश्चिम बंगाल	1	कमांडेंट, प्रथम आई.आर. बटालियन, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-मालदा रेंज, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस उपायुक्त-यातायात, कोलकाता	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-जलपाइगुड़ी रेंज, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस उपायुक्त-प्रवर्तन शाखा, कोलकाता	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस उपायुक्त-डिटैक्टिव विभाग, कोलकाता	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-आसूचना शाखा सीमा, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस उपायुक्त-केन्द्रीय प्रभाग, कोलकाता	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-सी. आई. डी., पश्चिम बंगाल	1	पुलिस उपायुक्त-ईस्टर्न उपनगरीय प्रभाग, कोलकाता	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-सी. आई. डी., ऑपरेशन, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस उपायुक्त-साउथ डिवीजन, कोलकाता	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-सी. आई. डी., विशेष, पश्चिम बंगाल	1	पुलिस उपायुक्त-सिक्वोरिटी कंट्रोल (I), कोलकाता	1
उप पुलिस महानिरीक्षक-सशस्त्र पुलिस, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल	1		
उप पुलिस महानिरीक्षक-सशस्त्र पुलिस, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	1		

पुलिस उपायुक्त—पोर्ट डिवीजन, कोलकाता	1	अपर पुलिस अधीक्षक—इंडस्ट्रियल दक्षिण 24 परगना	1
पुलिस उपायुक्त—रिजर्व फोर्स, कोलकाता	1	अपर पुलिस अधीक्षक—ग्रामीण, साउथ 24 परगना	1
पुलिस उपायुक्त—नोर्थ डिवीजन, कोलकाता	1	सहायक पुलिस महानिरीक्षक	1
पुलिस उपायुक्त—वायरलैस, कोलकाता	1	1. कुल वरिष्ठ ड्यूटी पर	162
पुलिस उपायुक्त—कोलकाता आर्मड पुलिस प्रथम बटालियन, कोलकाता	1	2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद '1' के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	64
पुलिस उपायुक्त—कोलकाता आर्मड पुलिस द्वितीय बटालियन, कोलकाता	1	3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद '1' के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	40
पुलिस उपायुक्त—कोलकाता आर्मड पुलिस तृतीय बटालियन, कोलकाता	1	4. प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद '1' के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	05
पुलिस उपायुक्त—कोलकाता आर्मड पुलिस चौथी बटालियन, कोलकाता	1	5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद '1' के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	26
पुलिस उपायुक्त—कोलकाता आर्मड पुलिस पांचवीं बटालियन, कोलकाता	1	6. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33.1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद	90
पुलिस उपायुक्त—डी डी (विशेष), कोलकाता	1	7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	207
अपर पुलिस अधीक्षक—मुख्यालय, दार्जिलिंग	1	8. कुल प्राधिकृत पद संख्या	297
अपर पुलिस अधीक्षक—बारासत, उत्तर 24 परगना	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—मुख्यालय, हावड़ा	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—हुगली	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—नादिया	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—आसनसोल	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—मुर्शिदाबाद	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—पुरुलिया	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—खड़गपुर	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—जलपाईगुड़ी	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—मुख्यालय, दक्षिण 24 परगना	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—सिलीगुड़ी	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—बीरभूम	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—बांकुड़ा	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—मालदा	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—उत्तर दिनाजपुर	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—दक्षिण दिनाजपुर	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—कूच बिहार	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—टाउन हामड़ा	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—इंडस्ट्रियल हुगली	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—दुर्गापुर	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—बैरकपुर	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—बिधाननगर	1		
अपर पुलिस अधीक्षक—हल्दिया	1		

[फा. सं. 11052/08/2009-अ.भा.से. II-क]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी :- इस अधिसूचना के जारी होने से पहले पश्चिम बंगाल के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 278 थी।

टिप्पणी 2 :- मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की संख्या का.नि.आ. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। बाद में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के संबंध में निम्न सा.का.नि. संख्या तथा तारीख द्वारा संशोधित किया गया :-

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	752(अ)	04-08-76
2.	527(अ)	08-09-80
3.	971	11-12-82
4.	344(अ)	20-04-83
5.	678	17-09-83
6.	610	29-06-85
7.	1140	14-12-85
8.	682(अ)	14-02-87
9.	654	16-11-91
10.	320(अ)	31-03-95
11.	87(अ)	21-02-97
12.	513	21-12-02
13.	426	13-12-03
14.	192(अ)	24-03-09

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS**

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2009.

G.S.R. 893 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1.(1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "West Bengal" for the entries occurring there under, the following shall be substituted namely :—

WEST BENGAL

Senior Duty Posts under the State Government		162	
Director General of Police	1	Inspector General of Police—Intelligence Branch, North Bengal, W. B.	1
Commandant General, Home Guards, W.B.	1	Inspector General of Police—Welfare, W. B.	1
Commissioner of Police—Kolkata	1	Inspector General of Police—Training, W. B.	1
Additional Director General of Police—Administration, W.B.	1	Inspector General of Police—Law & Order, W.B.	1
Additional Director General of Police—Welfare, W.B.	1	Inspector General of Police—Vigilance Commission, W.B.	1
Additional Director General of Police—Armed Police, W. B.	1	Inspector General of Police—Administration, W.B.	1
Managing Director, Police Housing Corp., W. B..	1	Inspector General of Police—Armed Police, North Bengal, Silliguri	1
Additional Director General of Police—Railways, W.B.	1	Joint Commissioner of Police—Armed Police, Kolkata	1
Additional Director General of Police—Enforcement Branch, W.B.	1	Joint Commissioner of Police—Organization, Kolkata	1
Additional Director General of Police—CID, W. B.	1	Joint Commissioner of Police—Administration, Kolkata	1
Additional Director General of Police—State Crime Records Bureau, W. B.	1	Joint Commissioner of Police—Traffic, Kolkata	1
Additional Director General of Police—Intelligence Branch, W. B.	1	Joint Commissioner of Police—Special Task Force, Kolkata	1
Additional Director General of Police—Telecommunication, W.B.	1	Joint Commissioner of Police—Intelligence, Kolkata	1
Additional Director General of Police—Training, W. B.	1	Joint Commissioner of Police—Hqrs., Kolkata	1
Inspector General of Police—Armed Police, Kolkata	1		
Inspector General of Police—Headquarters, W.B.	1		

Joint Commissioner of Police, Crime, Kolkata	1	Deputy Inspector General of Police— Home Guards, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police - Headquarters, W. B.	1	Deputy Inspector General of Police— & Controller of Civil Defence, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police - Administration, W.B.	1	Deputy Inspector General of Police— State Crime Records Bureau, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police— Organization, W.B.	1	Deputy Inspector General of Police— Modernization, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police—IPS Cell, W.B.	1	Deputy Inspector General of Police— Darjeeling Range, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police—Welfare, W.B.	1	Deputy Inspector General of Police— Bureau of Investigation Fin. (T) Deptt.	1
Deputy Inspector General of Police— Vigilance, W.B.	1	Superintendent of Police—Howrah, Nadia,	18
Deputy Inspector General of Police—Railways, W. B.	1	Murshidabad, Burdwan, Birbhum, Hooghly, Bankura, Paschim Medinipur, Purulia, Jalpaiguri, Cooch-Behar, Darjeeling, Malda, Dakshin Dinajpur, Uttar Dinajpur, Purba Medinipur, South 24 Parganas,	
Deputy Inspector General of Police—Traffic, W.B.	1	North 24 Parganas	
Deputy Inspector General of Police— Presidency Range, W.B.	1	Special Superintendent of Police— Intelligence Branch, W.B.	3
Deputy Inspector General of Police— Burdwan Range, W.B.	1	Special Superintendent of Police— CID, W.B.	3
Deputy Inspector General of Police— Midnapore Range, W.B.	1	Special Superintendent of Police— Intelligence Branch, Silliguri, W.B.	1
Deputy Inspector General of Police— Murshidabad Range, W.B.	1	Superintendent of Police— Railway Police, Howrah	1
Deputy Inspector General of Police— Malda Range, W.B.	1	Superintendent of Police— Railway Police, Sealdah	1
Deputy Inspector General of Police— Jalpaiguri Range, W.B.	1	Superintendent of Police— Railway Police, Silliguri	1
Deputy Inspector General of Police—Intelligence Branch, W.B.	1	Superintendent of Police— Railway Police, Kharagpur	1
Deputy Inspector General of Police—Intelligence Branch, Border, W.B.	1	Commandant, Eastern Frontier Rifles, 1st Bn.	1
Deputy Inspector General of Police— CID, W.B.	1	Commandant, Eastern Frontier Rifles, 2nd Bn.	1
Deputy Inspector General of Police— CID, Operation, W.B.	1	Commandant, Eastern Frontier Rifles, 3rd Bn.	1
Deputy Inspector General of Police— CID, Special, W.B.	1	Commandant, State Armed Police, 1st Bn., W.B.	1
Deputy Inspector General of Police— Armed Police, Barrackpore, W.B.	1	Commandant, State Armed Police, 2nd Bn., W.B.	1
Deputy Inspector General of Police— Armed Police, Durgapur, W.B.	1	Commandant, State Armed Police, 3rd Bn., W.B.	1
Deputy Inspector General of Police— Armed Police, Silliguri, W.B.	1	Commandant, State Armed Police, 4th Bn., W.B.	1
Deputy Inspector General of Police— EFR Bns., W.B.	1	Commandant, State Armed Police, 6th Bn., W.B.	1
Deputy Inspector General of Police— Enforcement Branch, W.B.	1	Commandant, State Armed Police, 7th Bn., W.B.	1
Deputy Inspector General of Police— Training-cum-Principal, Police Training College, Barrackpore, W.B.	1	Commandant, State Armed Police, 8th Bn., W.B.	1
		Commandant, 1st I.R. Bn., Durgapur, W.B.	1
		Deputy Commissioner of Police—Traffic, Kolkata	1
		Deputy Commissioner of Police— Enforcement Branch Kolkata	1

4543505-2

Deputy Commissioner of Police— Detective Deptt., Kolkata	1	Additional Superintendent of Police, Birbhum	1
Deputy Commissioner of Police— Central Division, Kolkata	1	Additional Superintendent of Police, Bankura	1
Deputy Commissioner of Police— Eastern Suburban Division, Kolkata	1	Additional Superintendent of Police, Malda	1
Deputy Commissioner of Police— South Division, Kolkata	1	Additional Superintendent of Police, Uttar Dinajpur	1
Deputy Commissioner of Police— Security Control (I), Kolkata	1	Additional Superintendent of Police, Dakshin Dinajpur	1
Deputy Commissioner of Police— Port Division, Kolkata	1	Additional Superintendent of Police, Cooch-Behar	1
Deputy Commissioner of Police— Reserve Force, Kolkata	1	Additional Superintendent of Police, Town Howrah	1
Deputy Commissioner of Police— North Division, Kolkata	1	Additional Superintendent of Police, Industrial Hooghly	1
Deputy Commissioner of Police— Wireless, Kolkata	1	Additional Superintendent of Police, Durgapur	1
Deputy Commissioner of Police— Kolkata Armed Police 1st Bn., Kolkata	1	Additional Superintendent of Police, Barrackpore	1
Deputy Commissioner of Police— Kolkata Armed Police 2nd Bn., Kolkata	1	Additional Superintendent of Police, Bidhannagar	1
Deputy Commissioner of Police— Kolkata Armed Police 3rd Bn., Kolkata	1	Additional Superintendent of Police, Haldia	1
Deputy Commissioner of Police— Kolkata Armed Police 4th Bn., Kolkata	1	Additional Superintendent of Police, Industrial South 24 Parganas	1
Deputy Commissioner of Police— Kolkata Armed Police 5th Bn., Kolkata	1	Additional Superintendent of Police, Rural, South 24 Parganas	1
Deputy Commissioner of Police— DD (Special), Kolkata	1	Assistant Inspector General of Police	1
Additional Superintendent of Police, Headquarters, Darjeeling	1	1. Total Senior Duty Posts	162
Additional Superintendent of Police, Barasat, North 24 Parganas	1	2. Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	64
Additional Superintendent of Police, Headquarters, Howrah	1	3. State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	40
Additional Superintendent of Police, Hooghly	1	4. Training Reserve not exceeding 3.5 % of item 1 above	05
Additional Superintendent of Police, Nadia	1	5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of item 1 above	26
Additional Superintendent of Police, Asansol	1	6. Posts to be filled by promotion under Rule 9 of The Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of item 1,2,3 & 4	90
Additional Superintendent of Police, Murshidabad	1	7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Item 1+2+3+4+5-6)	207
Additional Superintendent of Police, Purulia	1	Total Authorized Strength	297
Additional Superintendent of Police, Kharagpur	1	{F. No. 11052/08/2009-AIS-II-A}	
Additional Superintendent of Police, Jalpaiguri	1	HARISH C. RAI, Desk Officer	
Additional Superintendent of Police, Hqrs., South 24 Parganas	1	Note 1 : Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of West Bengal IPS Cadre was 278.	
Additional Superintendent of Police, Siliguri	1	Note 2 : The principal Regulations were published in the Gazette of India <i>vide</i> SRO No. 3350, dated 22-10-1995. Subsequently, they were amended in respect of the West Bengal Cadre of Indian Police Service <i>vide</i> following G.S.R. numbers and dates :—	

S.No.	G.S.R. No.	Date	अपर पुलिस महानिदेशक--	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000
1.	752(E)	04-08-1976	कल्याण, पश्चिम बंगाल	(वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
2.	527(E)	08-09-1980		
3.	971	11-12-1982	अपर पुलिस महानिदेशक--	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000
4.	344(E)	20-04-1983	सशस्त्र पुलिस, पश्चिम बंगाल	(वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
5.	678	17-09-1983		
6.	610	29-06-1985		
7.	1140	14-12-1985	प्रबंध निदेशक, पुलिस हाउसिंग	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000
8.	682(E)	14-02-1987	कोरप., पश्चिम बंगाल	(वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
9.	654	16-11-1991		
10.	320(E)	31-03-1995		
11.	87(E)	21-02-1997	अपर पुलिस महानिदेशक--	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000
12.	513	21-12-2002	रेलवे, पश्चिम बंगाल	(वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
13.	426	13-12-2003		
14.	192(E)	24-03-2009	अपर पुलिस महानिदेशक--	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 894(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) ये नियम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियमावली, 2009 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :—

अनुसूची II-क में, राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा में समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में तालिका में प्रथम कॉलम में आने वाली 'पश्चिम बंगाल' प्रविष्टि और द्वितीय कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पश्चिम बंगाल

पुलिस महानिदेशक	80,000 रुपए (नियत)
कमांडेंट जनरल, होमगार्ड्स, पश्चिम बंगाल	एच.ए.जी.+75500 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--80000
पुलिस आयुक्त-कोलकाता	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
अपर पुलिस महानिदेशक-- प्रशासन, पश्चिम बंगाल	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000

अपर पुलिस महानिदेशक-- कल्याण, पश्चिम बंगाल	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
अपर पुलिस महानिदेशक-- सशस्त्र पुलिस, पश्चिम बंगाल	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
प्रबंध निदेशक, पुलिस हाउसिंग कोरप., पश्चिम बंगाल	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
अपर पुलिस महानिदेशक-- रेलवे, पश्चिम बंगाल	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
अपर पुलिस महानिदेशक-- प्रवर्तन शाखा, पश्चिम बंगाल	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
अपर पुलिस महानिदेशक-- सी आई डी, पश्चिम बंगाल	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
अपर पुलिस महानिदेशक-- राज्य अपराध, रिकार्ड ब्यूरो, पश्चिम बंगाल	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
अपर पुलिस महानिदेशक-- आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
अपर पुलिस महानिदेशक-- दूरसंचार, पश्चिम बंगाल	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
अपर पुलिस महानिदेशक-- प्रशिक्षण, पश्चिम बंगाल	एच.ए.जी. वेतनमान : 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)--79000
पुलिस महानिरीक्षक-सशस्त्र पुलिस, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक-- मुख्यालय, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक-सी.आई. डी.-I, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक-सी.आई. डी.-II, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक-आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए

पुलिस महानिरीक्षक-प्रवर्तन शाखा, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात, कोलकाता	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक-संगठन, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	संयुक्त पुलिस आयुक्त, विशेष कार्यदल, कोलकाता	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक-रेलवे, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	संयुक्त पुलिस आयुक्त, आसूचना, कोलकाता	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक-दूरसंचार, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	संयुक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय, कोलकाता	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, नॉर्थ	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध, कोलकाता	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, साउथ	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, पश्चिम	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, यातायात	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, संगठन, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
अपर पुलिस आयुक्त-I, कोलकाता	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, आईपीएस एकक, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
अपर पुलिस आयुक्त-II, कोलकाता	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, कल्याण, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
अपर पुलिस आयुक्त-III, कोलकाता	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
अपर पुलिस आयुक्त-IV, कोलकाता	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महा निरीक्षक-आसूचना शाखा (बोर्डर) पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक-आसूचना शाखा (नॉर्थ बंगाल), पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रेजीडेंसी रेंज, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, कल्याण	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, बर्द्धवान रेंज, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, मिदनापुर रेंज, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, मुर्शीदाबाद रेंज, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता आयोग, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, मालदा रेंज, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, जलपाईगुडी रेंज, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस, नॉर्थ बंगाल, सिलीगुडी	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त, सशस्त्र पुलिस, कोलकाता	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए	उप पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना शाखा, बोर्डर, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त, संगठन, कोलकाता	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए		
संयुक्त पुलिस आयुक्त, प्रशासन, कोलकाता	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए		

उप पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी., पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी. ऑपरेशन, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी. विशेष, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस बेरकपुर, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-8900 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, ई.एफ.आर., बटालियन, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रवर्तन शाखा, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण-सह-प्रधानाचार्य ट्रेनिंग कॉलेज, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक एवं सिविल सुरक्षा नियंत्रक, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक आधुनिकीकरण, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक दार्जिलिंग रेंज, पश्चिम बंगाल	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक अन्वेषण ब्यूरो, वित्त (टी.), विभाग	पीबी-4+जीपी-10000 रुपए

(ख) अनुसूची-II, भाग-ख में राज्य सरकार के अंतर्गत वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के पदों के लिए 'पश्चिम बंगाल' के अंतर्गत आने वाली

प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

पुलिस अधीक्षक-हावड़ा, नादिया, मुर्शीदाबाद, बर्द्धवान, बीरभूम, हुगली, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, दार्जिलिंग, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, पूर्व मेदिनीपुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना

विशेष पुलिस अधीक्षक-आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल

विशेष पुलिस अधीक्षक-सी.आई.डी., पश्चिम बंगाल

विशेष पुलिस अधीक्षक-आसूचना शाखा, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल

पुलिस अधीक्षक-रेलवे पुलिस, हावड़ा

पुलिस अधीक्षक-रेलवे पुलिस, सियालदाह

पुलिस अधीक्षक-रेलवे पुलिस, सिलीगुड़ी

पुलिस अधीक्षक-रेलवे पुलिस, खड़गपुर

कमांडेंट, ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स, प्रथम बटालियन

कमांडेंट, ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स, द्वितीय बटालियन

कमांडेंट, ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स, तृतीय बटालियन

कमांडेंट, स्टेट आर्मड पुलिस, प्रथम बटालियन, पश्चिम बंगाल

कमांडेंट, स्टेट आर्मड पुलिस, द्वितीय बटालियन, पश्चिम बंगाल

कमांडेंट, स्टेट आर्मड पुलिस, तृतीय बटालियन, पश्चिम बंगाल

कमांडेंट, स्टेट आर्मड पुलिस, चौथी बटालियन, पश्चिम बंगाल

कमांडेंट, स्टेट आर्मड पुलिस, छठी बटालियन, पश्चिम बंगाल

कमांडेंट, स्टेट आर्मड पुलिस, सातवीं बटालियन, पश्चिम बंगाल

कमांडेंट, स्टेट आर्मड पुलिस, आठवीं बटालियन, पश्चिम बंगाल

कमांडेंट, प्रथम आई.आर. बटालियन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल

पुलिस उपायुक्त-यातायात, कोलकाता

पुलिस उपायुक्त-प्रवर्तन शाखा, कोलकाता

पुलिस उपायुक्त-डिटैक्टिव विभाग, कोलकाता

पुलिस उपायुक्त-केन्द्रीय प्रभाग, कोलकाता

पुलिस उपायुक्त-ईस्टर्न उपनगरीय प्रभाग, कोलकाता

पुलिस उपायुक्त-साउथ डिवीजन, कोलकाता

पुलिस उपायुक्त-सीक्योरिटी कंट्रोल (I), कोलकाता

पुलिस उपायुक्त-पोर्ट डिवीजन, कोलकाता

पुलिस उपायुक्त-रिजर्व फोर्स, कोलकाता

पुलिस उपायुक्त-नॉर्थ डिवीजन, कोलकाता

पुलिस उपायुक्त-वायरलैस, कोलकाता

पुलिस उपायुक्त-कोलकाता आर्मड पुलिस प्रथम बटालियन, कोलकाता

पुलिस उपायुक्त-कोलकाता आर्मड पुलिस द्वितीय बटालियन, कोलकाता

पुलिस उपायुक्त-कोलकाता आर्मड पुलिस तृतीय बटालियन, कोलकाता

पुलिस उपायुक्त-कोलकाता आर्मड पुलिस चौथी बटालियन, कोलकाता

45434007-3

पुलिस उपायुक्त—कोलकाता आर्मड पुलिस पांचवी बटालियन, कोलकाता
 पुलिस उपायुक्त—डी डी (विशेष), कोलकाता
 अपर पुलिस अधीक्षक—मुख्यालय, दार्जिलिंग
 अपर पुलिस अधीक्षक—बारासात, उत्तर 24 परगना
 अपर पुलिस अधीक्षक—मुख्यालय, हावड़ा
 अपर पुलिस अधीक्षक—हुगली
 अपर पुलिस अधीक्षक—नादिया
 अपर पुलिस अधीक्षक—आसनसोल
 अपर पुलिस अधीक्षक—मुर्शीदाबाद
 अपर पुलिस अधीक्षक—पुरुलिया
 अपर पुलिस अधीक्षक—खड़गपुर
 अपर पुलिस अधीक्षक—जुलपाईगुडी
 अपर पुलिस अधीक्षक—मुख्यालय, दक्षिण 24 परगना
 अपर पुलिस अधीक्षक—सिलीगुडी
 अपर पुलिस अधीक्षक—बीरभूम
 अपर पुलिस अधीक्षक—बांकुड़ा
 अपर पुलिस अधीक्षक—मालदा
 अपर पुलिस अधीक्षक—उत्तर दिनाजपुर
 अपर पुलिस अधीक्षक—दक्षिण दिनाजपुर

अपर पुलिस अधीक्षक—कूच बिहार
 अपर पुलिस अधीक्षक—टाउन हावड़ा
 अपर पुलिस अधीक्षक—इंडस्ट्रियल हुगली
 अपर पुलिस अधीक्षक—दुर्गापुर
 अपर पुलिस अधीक्षक—बैरकपुर
 अपर पुलिस अधीक्षक—बिधाननगर
 अपर पुलिस अधीक्षक—हल्दिया
 अपर पुलिस अधीक्षक—इंडस्ट्रियल, दक्षिण 24 परगना
 अपर पुलिस अधीक्षक—ग्रामीण, साउथ 24 परगना
 सहायक पुलिस महानिरीक्षक

[फा. सं. 11052/08/2009-अ.भा.से. ii-ख]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. सं. 108 (अ), दिनांक 21-02-2008 द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में सं. सा.का.नि. 692(अ), दिनांक 27-09-2008 और 589(अ), दिनांक 20-09-2009 द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2009

G.S.R. 894(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Sixth Amendment Rules, 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007:—

In “Scheduled II-A posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Police Service under the State Governments”, in the table, for the entry ‘WEST BENGAL’ occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely :—

“WEST BENGAL”

Director General of Police	Rs. 80000 (fixed)
Commandant General, Home Guards, WB.	HAG+ Rs. 75500 (annual increment @ 3%) - 80000
Commissioner of Police - Kolkata	HAG Scale - Rs. 67000 (annual increment @ 3%) - 79000
Additional Director General of Police - Administration, W.B.	HAG Scale - Rs. 67000 (annual increment @ 3%) - 79000
Additional Director General of Police - Welfare, W.B.	HAG Scale - Rs. 67000 (annual increment @ 3%) - 79000
Additional Director General of Police - Armed Police, W.B.	HAG Scale - Rs. 67000 (annual increment @ 3%) - 79000
Managing Director, Police Housing Corp., W.B.	HAG Scale - Rs. 67000 (annual increment @ 3%) - 79000
Additional Director General of Police - Railways, W.B.	HAG Scale - Rs. 67000 (annual increment @ 3%) - 79000
Additional Director General of Police - Enforcement Branch, W.B.	HAG Scale - Rs. 67000 (annual increment @ 3%) - 79000
Additional Director General of Police - CID, W.B.	HAG Scale - Rs. 67000 (annual increment @ 3%) - 79000
Additional Director General of Police - State Crime Records, Bureau, W.B.	HAG Scale - Rs. 67000 (annual increment @ 3%) - 79000

Additional Director General of Police - Intelligence Branch, W.B.	HAG Scale - Rs. 67000 (annual increment @ 3%) 79000
Additional Director General of Police - Telecommunication, W.B.	HAG Scale - Rs. 67000 (annual increment @ 3%) 79000
Additional Director General of Police - Training, W.B.	HAG Scale - Rs. 67000 (annual increment @ 3%) 79000
Inspector General of Police - Armed Police, Kolkata	PB-4 + GPRs. 10000
Inspector General of Police - Headquarters, W.B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - CID-I, W.B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - CID-II, W.B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - Intelligence Branch, W.B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - Enforcement Branch, W.B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - Organization, W.B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - Railways, W.B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - Telecommunication, W.B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - North	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - South	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - West	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - Traffic, W.B.	
Additional Commissioner of Police - I, Kolkata	PB-4 + GPRs. 10000
Additional Commissioner of Police - II, Kolkata	PB-4 + GP Rs. 10000
Additional Commissioner of Police - III, Kolkata	PB-4 + GP Rs. 10000
Additional Commissioner of Police - IV, Kolkata	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - Intelligence Branch (Border), W.B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - Intelligence Branch, North Bengal, W. B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - Welfare, W.B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - Training, W.B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - Law & Order, W.B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - Vigilance Commission, W.B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - Administration, W.B.	PB-4 + GP Rs. 10000
Inspector General of Police - Armed Police, North Bengal, Silliguri	PB-4 + GP Rs. 10000
Joint Commissioner of Police - Armed Police, Kolkata	PB-4 + GP Rs. 8900
Joint Commissioner of Police, Organization Kolkata	PB-4 + GP Rs. 8900
Joint Commissioner of Police, Administration, Kolkata	PB-4 + GP Rs. 8900
Joint Commissioner of Police, Traffic, Kolkata	PB-4 + GP Rs. 8900
Joint Commissioner of Police, Special Task Force, Kolkata	PB-4 + GP Rs. 8900
Joint Commissioner of Police, Intelligence, Kolkata	PB-4 + GP Rs. 8900
Joint Commissioner of Police, Hqs., Kolkata	PB-4 + GP Rs. 8900
Joint Commissioner of Police, Crime, Kolkata	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Headquarters, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Administration, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Organization, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - IPS Cell, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Welfare, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Vigilance, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Railways, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Traffic, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Presidency Range, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900

4543 6805-4

Deputy Inspector General of Police - Burdwan Range, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Midnapore Range, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Murshidabad Range, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Malda Range, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Jalpaiguri Range, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Intelligence Branch, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Intelligence Branch, Border, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - CID, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - CID, Operation, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - CID, Special, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Armed Police, Barrackpore, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Armed Police, Durgapur, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Armed Police, Silliguri, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - EFR Bns., W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Enforcement Branch, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Training-cum-Principal, Police Training College, Barrackpore, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Home Guards, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police & Controller of Civil Defence, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - State Crime Records Bureau, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Modernization, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Darjeeling Range, W.B.	PB-4 + GP Rs. 8900
Deputy Inspector General of Police - Bureau of Investigation Fin. (T) Deptt.	PB-4 + GP Rs. 8900

(b) In "Schedule II-Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Police Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay, for the entries occurring under 'West Bengal', the following shall be substituted, namely :—

Superintendent of Police - Howrah, Nadia, Murshidabad, Burdwan, Birbhum, Hooghly, Bankura, Paschim Medinipur, Purulia, Jalpaiguri, Cooch-Behar, Darjeeling, Malda, Dakshin Dinajpur, Uttar Dinajpur, Purba Medinipur, South 24 Parganas, North 24 Parganas

Special Superintendent of Police - Intelligence Branch, W.B.
 Special Superintendent of Police - CID, W.B.
 Special Superintendent of Police - Intelligence Branch, Silliguri, W.B.
 Superintendent of Police - Railway Police, Howrah
 Superintendent of Police - Railway Police, Sealdah
 Superintendent of Police - Railway Police, Siliguri
 Superintendent of Police - Railway Police, Kharagpur
 Commandant, Eastern Frontier Rifles, 1st Bn.
 Commandant, Eastern Frontier Rifles, 2nd Bn.
 Commandant, Eastern Frontier Rifles, 3rd Bn.
 Commandant, State Armed Police, 1st Bn., W.B.
 Commandant, State Armed Police, 2nd Bn., W.B.
 Commandant, State Armed Police, 3rd Bn., W.B.
 Commandant, State Armed Police, 4th Bn, WB.
 Commandant, State Armed Police, 6th Bn., W.B.
 Commandant, State Armed Police, 7th Bn., W.B.
 Commandant, State Armed Police, 8th Bn., W.B.
 Commandant, 1st I.R. Bn., Durgapur, W.B.

Deputy Commissioner of Police - Traffic, Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - Enforcement Branch, Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - Detective Deptt., Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - Central Division, Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - Eastern Suburban Division, Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - South Division, Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - Security Control (I), Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - Port Division, Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - Reserve Force, Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - North Division, Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - Wireless, Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - Kolkata Armed Police 1st Bn., Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - Kolkata Armed Police 2nd Bn., Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - Kolkata Armed Police 3rd Bn., Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - Kolkata Armed Police 4th Bn., Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - Kolkata Armed Police 5th Bn., Kolkata
 Deputy Commissioner of Police - DD (Special), Kolkata
 Additional Superintendent of Police, Headquarters, Darjeeling
 Additional Superintendent of Police, Barasat, North 24 Parganas
 Additional Superintendent of Police, Headquarters, Howrah
 Additional Superintendent of Police, Hooghly
 Additional Superintendent of Police, Nadia
 Additional Superintendent of Police, Asansol
 Additional Superintendent of Police, Murshidabad
 Additional Superintendent of Police, Purulia
 Additional Superintendent of Police, Kharagpur
 Additional Superintendent of Police, Jalpaiguri
 Additional Superintendent of Police, Hqrs., South 24 Parganas
 Additional Superintendent of Police, Siliguri
 Additional Superintendent of Police, Birbhum
 Additional Superintendent of Police, Bankura
 Additional Superintendent of Police, Malda
 Additional Superintendent of Police, Uttar Dinajpur
 Additional Superintendent of Police, Dakshin Dinajpur
 Additional Superintendent of Police, Cooch-Behar
 Additional Superintendent of Police, Town Howrah
 Additional Superintendent of Police, Industrial Hooghly
 Additional Superintendent of Police, Durgapur
 Additional Superintendent of Police, Barrackpore
 Additional Superintendent of Police, Bidhannagar
 Additional Superintendent of Police, Haldia
 Additional Superintendent of Police, Industrial South 24 Parganas
 Additional Superintendent of Police, Rural, South 24 Parganas
 Assistant Inspector General of Police

[F. No. 11052/08/2009-AIS-(II)-B]
 HARISH C. RAI, Desk Officer

Note : The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, *vide* G.S.R. No. 108(E), dated 21-02-2008 and subsequently were amended *vide* G.S.R. Numbers 692(E), dated 27-09-2008 and 589 (E), dated 20-08-2009.